



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2007/फाल्गुन 4, 1928

No. 190]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2007/PHALGUNA 4, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2007

का.आ. 272(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. तक के भूखण्ड (सेलम-करुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जिला नामक्कल, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि. मी. से 278.600 कि. मी. तक (सेलम - करूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नामक्कल	1. नामक्कल	(1) ठठाअयंगरपट्टी	160/1	निजी	शुष्क	198
				163/9	निजी	शुष्क	1527
				163/10	निजी	शुष्क	99
				169/4	निजी	शुष्क	190
				171/4ए	निजी	शुष्क	12.5
				172/1ए2ए	निजी	शुष्क	41
				172/1ए2बी	निजी	शुष्क	1897
				172/1बी2	निजी	शुष्क	2887
				174/1	निजी	शुष्क	911
				174/2	निजी	शुष्क	1219
				182/1सी1	निजी	शुष्क	652
				182/1सी2	निजी	शुष्क	571
				182/1सी3	निजी	शुष्क	205
				182/1सी4	निजी	शुष्क	634
				182/2बी	निजी	शुष्क	537
				182/2ई	निजी	शुष्क	216
				182/3बी	निजी	शुष्क	199
				186/1ए	निजी	शुष्क	1830
				186/3	निजी	शुष्क	1879
				188/1ए	निजी	शुष्क	1263
				188/1बी	निजी	शुष्क	333
				188/2	निजी	शुष्क	372
				189/7ए	निजी	शुष्क	1263

1	2	3	4	5	6	7	8
				189/7बी	निजी	शुष्क	756
				189/8ए	निजी	शुष्क	591
				189/8बी	निजी	शुष्क	418
				189/8सी	निजी	शुष्क	411
				190/6	निजी	शुष्क	1326
				190/7	निजी	शुष्क	3
				192/2बी	निजी	शुष्क	1380
				208/3ए5	निजी	शुष्क	763
				208/7	निजी	शुष्क	601
				208/9	निजी	शुष्क	74
				209/1ए1ए	निजी	शुष्क	125
				209/1ए2ए	निजी	शुष्क	272
				209/1ए2बी	निजी	शुष्क	161
				209/1ए2सी	निजी	शुष्क	598
				209/1बी	निजी	शुष्क	231
				209/1सी	निजी	शुष्क	502
			(2) कालिंगनी	24/3	निजी	शुष्क	2027
				24/6	निजी	शुष्क	2508
				30/1बी	निजी	शुष्क	245
				30/1ए2सी	निजी	शुष्क	259
				30/6	निजी	शुष्क	270
				30/7	निजी	शुष्क	204
				30/8बी	निजी	शुष्क	25
				30/8सी	निजी	शुष्क	151
				30/9	निजी	शुष्क	141
				30/13ए	निजी	शुष्क	10
				30/13बी	निजी	शुष्क	13
				30/13सी1	निजी	शुष्क	109
				30/13सी2	निजी	शुष्क	166

1	2	3	4	5	6	7	8
				30/13डी	निजी	शुष्क	290
				30/14ए	निजी	शुष्क	3
				30/14बी	निजी	शुष्क	20
				33/3ए	निजी	शुष्क	1194
				33/4बी	निजी	शुष्क	270
				33/5	निजी	शुष्क	975
				36/1	निजी	शुष्क	1051.5
				36/2	निजी	शुष्क	1544
				37/1	निजी	शुष्क	503
				79/2बी	निजी	शुष्क	1880
				80/1	निजी	शुष्क	1080.5
				80/7ए3	निजी	शुष्क	111
				80/9ए2ए	निजी	शुष्क	126
				80/9ए2बी	निजी	शुष्क	134.5
				94/1बी2	निजी	शुष्क	444.5
				94/2ए	निजी	शुष्क	500.5
				94/2बी	निजी	शुष्क	155.5
				94/2डी	निजी	शुष्क	184
				96/3ए	निजी	शुष्क	1670
				96/3बी1.	निजी	शुष्क	703.5
				96/3बी2	निजी	शुष्क	817
				96/3सी	निजी	शुष्क	222
				98/1ए	निजी	शुष्क	227.5
				98/1सी	निजी	शुष्क	224.5
				98/2ए	निजी	शुष्क	120.5
				98/2सी	निजी	शुष्क	179
				98/2एफ	निजी	शुष्क	556.5
				98/4बी	निजी	शुष्क	1976.5
				101/1ए1	निजी	शुष्क	597
				101/1सी	निजी	शुष्क	174

1	2	3	4	5	6	7	8
				101/1ई	निजी	शुष्क	131
				101/1जी	निजी	शुष्क	207
				101/1एच	निजी	शुष्क	94
				101/3ए1	निजी	शुष्क	144
				101/3ए2	निजी	शुष्क	132
				101/3बी	निजी	शुष्क	1265
				101/3सी7	निजी	शुष्क	50
				101/3सी8	निजी	शुष्क	121
				101/3सी9	निजी	शुष्क	103
				101/3सी10	निजी	शुष्क	96
				101/3सी13	निजी	शुष्क	119
				101/3सी14	निजी	शुष्क	32
				101/3सी18	निजी	शुष्क	214
				103/3ए	निजी	शुष्क	765
				103/3बी	निजी	शुष्क	753
				107/2	निजी	शुष्क	775
				107/3	निजी	शुष्क	1366
				107/5बी	निजी	शुष्क	1318
				108/8बी	निजी	शुष्क	309
				108/8सी	निजी	शुष्क	179
				108/20	निजी	शुष्क	38
				108/21	निजी	शुष्क	49
				108/22	निजी	शुष्क	49
			(3) मिन्नामपल्ली	7/2ए1	निजी	शुष्क	451.5
				7/2बी	निजी	शुष्क	357
				7/6ए1	निजी	शुष्क	14
				10/6	निजी	शुष्क	160
				10/7	निजी	शुष्क	204
				10/8	निजी	शुष्क	4403

59861/07-2

1	2	3	4	5	6	7	8
				10/9	निजी	शुष्क	382
				10/11ए	निजी	शुष्क	587
				10/11बी	निजी	शुष्क	715
				11/1बी	निजी	शुष्क	1691
				11/4सी	निजी	शुष्क	750

[फा. सं. भारांप्रा/तक/एलए/सेलम-करुर/नामक्कल 3(ए)/2006]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2007

S.O. 272(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem – Karur Section) in District of Namakkal in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Namakkal District, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3(C) of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 217.600 to Km-278.600 (Salem-Karur Section) of the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Namakkal	1. Namakkal	(1) Thathaiyanganarpatti	160/1	Private	Dry	198
				163/9	Private	Dry	1527
				163/10	Private	Dry	99
				169/4	Private	Dry	190
				171/4A	Private	Dry	12.5
				172/1A2A	Private	Dry	41
				172/1A2B	Private	Dry	1897
				172/1B2	Private	Dry	2887
				174/1	Private	Dry	911
				174/2	Private	Dry	1219
				182/1C1	Private	Dry	652
				182/1C2	Private	Dry	571
				182/1C3	Private	Dry	205
				182/1C4	Private	Dry	634
				182/2B	Private	Dry	537
				182/2E	Private	Dry	216
				182/3B	Private	Dry	199
				186/1A	Private	Dry	1830
				186/3	Private	Dry	1879
				188/1A	Private	Dry	1263
				188/1B	Private	Dry	333
				188/2	Private	Dry	372
				189/7A	Private	Dry	1263
				189/7B	Private	Dry	756
				189/8A	Private	Dry	591
				189/8B	Private	Dry	418
				189/8C	Private	Dry	411
				190/6	Private	Dry	1326
				190/7	Private	Dry	3
				192/2B	Private	Dry	1380

1	2	3	4	5	6	7	8
				208/3A5	Private	Dry	763
				208/7	Private	Dry	601
				208/9	Private	Dry	74
				209/1A1A	Private	Dry	125
				209/1A2A	Private	Dry	272
				209/1A2B	Private	Dry	161
				209/1A2C	Private	Dry	598
				209/1B	Private	Dry	231
				209/1C	Private	Dry	502
			(2) Kalangani	24/3	Private	Dry	2027
				24/6	Private	Dry	2508
				30/1B	Private	Dry	245
				30/1A2C	Private	Dry	259
				30/6	Private	Dry	270
				30/7	Private	Dry	204
				30/8B	Private	Dry	25
				30/8C	Private	Dry	151
				30/9	Private	Dry	141
				30/13A	Private	Dry	10
				30/13B	Private	Dry	13
				30/13C1	Private	Dry	109
				30/13C2	Private	Dry	166
				30/13D	Private	Dry	290
				30/14A	Private	Dry	3
				30/14B	Private	Dry	20
				33/3A	Private	Dry	1194
				33/4B	Private	Dry	270
				33/5	Private	Dry	975
				36/1	Private	Dry	1051.5
				36/2	Private	Dry	1544
				37/1	Private	Dry	503
				79/2B	Private	Dry	1880
				80/1	Private	Dry	1080.5
				80/7A3	Private	Dry	111

1	2	3	4	5	6	7	8
				80/9A2A	Private	Dry	126
				80/9A2B	Private	Dry	134.5
				94/1B2	Private	Dry	444.5
				94/2A	Private	Dry	500.5
				94/2B	Private	Dry	155.5
				94/2D	Private	Dry	184
				96/3A	Private	Dry	1670
				96/3B1	Private	Dry	703.5
				96/3B2	Private	Dry	817
				96/3C	Private	Dry	222
				98/1A	Private	Dry	227.5
				98/1C	Private	Dry	224.5
				98/2A	Private	Dry	120.5
				98/2C	Private	Dry	179
				98/2F	Private	Dry	556.5
				98/4B	Private	Dry	1976.5
				101/1A1	Private	Dry	597
				101/1C	Private	Dry	174
				101/1E	Private	Dry	131
				101/1G	Private	Dry	207
				101/1H	Private	Dry	94
				101/3A1	Private	Dry	144
				101/3A2	Private	Dry	132
				101/3B	Private	Dry	1265
				101/3C7	Private	Dry	50
				101/3C8	Private	Dry	121
				101/3C9	Private	Dry	103
				101/3C10	Private	Dry	96
				101/3C13	Private	Dry	119
				101/3C14	Private	Dry	32
				101/3C18	Private	Dry	214
				103/3A	Private	Dry	765
				103/3B	Private	Dry	753
				107/2	Private	Dry	775

598 GI/07-3

1	2	3	4	5	6	7	8
				107/3	Private	Dry	1366
				107/5B	Private	Dry	1318
				108/8B	Private	Dry	309
				108/8C	Private	Dry	179
				108/20	Private	Dry	38
				108/21	Private	Dry	49
				108/22	Private	Dry	49
			(3)Minnampalli	7/2A1	Private	Dry	451.5
				7/2B	Private	Dry	357
				7/6A1	Private	Dry	14
				10/6	Private	Dry	160
				10/7	Private	Dry	204
				10/8	Private	Dry	4403
				10/9	Private	Dry	382
				10/11A	Private	Dry	587
				10/11B	Private	Dry	715
				11/1B	Private	Dry	1691
				11/4C	Private	Dry	750

[F. No. NHAI/Tech/LA/Salem-Karur/Namakkal 3(A)/2006]

PRABHAKAR, Dy. Secy.